






टिनगी और उसकी गायें

丁支同班牛

-  Ingrid Schechter
-  Ingrid Schechter
-  Nandani
-  Hindi / Cantonese
-  Level 2





टिनिगी अपनी दादी माँ के साथ रहता था।

...

丁支同嬷嬷一齊住。



वह उनके साथ गायों की देख-भाल करता था।

...

丁支成日同嫲嫲一齊睇住班牛。



एक दिने सिपाही आए।

...

有一日，條村度嚟咗班士兵。



वे अपने साथ गायों को ले गए।

...

佢哋帶走晒啲牛。



टिनिगी और उसकी दादी माँ भागे और छुप गए।

...


丁支同嬷嬷逃離咗條村，匿埋咗。



वे रात तक झाड़ियों में छिपे रहे।

...

佢哋匿埋喺樹叢度，一直到天黑。



वे सिपाही फिर से वापस आ गए।

...

跟住班士兵就返嚟。



दादी माँ ने टिनिगी को पत्तों के नीचे छिपा दिया।

...

嫲嫲幫丁支扣住啲樹葉俾佢匿埋喺底下。



उनमें से एक सिपाही ने उसके ऊपर पैर रख दिया, लेकिन वह चुप रहा।

...

有個士兵踩到丁支藏身嘅樹葉上面，但係丁支都冇出聲。



सुरक्षित समय पर टिनिगी और उसकी दादी माँ बाहर निकल
आए।

...

丁支同嬷嬷等到周圍安全先走咗出嚟。



वे चुपचाप अपने घर चले गए।

...

佢哋靜雞雞爬返屋企。



香港故事書

global-asp.github.io/storybooks-hongkong

टिनगी और उसकी गायें

丁支同班牛

Written by: Ingrid Schechter

Illustrated by: Ingrid Schechter

Translated by: Nandani (hi), dohliam (yue)

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by [香港故事書](https://global-asp.github.io/storybooks-hongkong) in an effort to provide children's stories in 香港's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 3.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).